



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1901]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 30, 2011/आश्विन 8, 1933

No. 1901]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 30, 2011/ASVINA 8, 1933

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 सितम्बर, 2011

का.आ. 2291(अ):—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2668(अ), तारीख 28 अक्टूबर, 2010, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित की गई थी (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) और जिसे उक्त अधिनियम की धारा 3क की उप-धारा (1) के अधीन जारी अधिसूचना संख्या का.आ. 1575(अ), तारीख 5 जुलाई, 2011 द्वारा संशोधित किया गया था, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित की गई थी (जिसे इसमें इसके पश्चात् संशोधित अधिसूचना कहा गया है), द्वारा उड़ीसा राज्य के ढेंकानाल जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 200 के 306.500 कि.मी. से 368.000 कि.मी. (गडपरजंग-सामल सेक्शन) तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और, उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उप-धारा (3) के अधीन तारीख 18 जनवरी, 2011 को "समय" और "सम्बाद कालिका" दोनों में तथा संशोधित अधिसूचना का सार तारीख 15 अगस्त, 2011 को "समय" और "धरित्रि" दोनों में प्रकाशित किया गया था;

और सक्षम प्राधिकारी को किसी व्यक्ति से कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए हैं;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 200 के 306.500 कि.मी. से 368.000 कि.मी. तक (गडपरजंग - सामल सेक्शन) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

क्रम संख्या	खिले का नाम	तालुक का नाम	गाँव का नाम	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितधारक व्यक्ति का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	देकानाल	कामाखानगर	बाईसिंगा	573	निजी	शारद-III	0.010	भीम साहु, दलेई साहु, पुत्र-नटवर साहु, गाँव-निजगाँव
				612	निजी	शारद-II	0.010	प्रमोद बेहेरा, पुत्र-चैतन्य बेहेरा, बचन बेहेरा, पुत्र-सदा बेहेरा, भास्कर बेहेरा, पुत्र-दिना बेहेरा, जह्नी बेहेरा, पत्नि-दलेई बेहेरा और अनेक, गाँव-निजगाँव
				690	निजी	शारद-III	0.010	शेसदेव बेहेरा, पुत्र-राजा बेहेरा, गाँव-निजगाँव
				691	निजी	शारद-II	0.010	शेसदेव बेहेरा, पुत्र-राजा बेहेरा, गाँव-निजगाँव
				759	निजी	घरबारी	0.020	कुलमणि साहु, पुत्र-गुणविधी साहु, गाँव-निजगाँव
				763	सरकारी	गोघर	0.020	रखित
				869	सरकारी	रास्ता	1.700	रखित
				983	सरकारी	रास्ता	0.500	रखित

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				983/4564	सरकारी	नयनजोरी	0.300	रखित
				983/4565	सरकारी	नयनजोरी	0.300	रखित
				869/4566	सरकारी	नयनजोरी	0.940	रखित
				869/4567	सरकारी	नयनजोरी	0.900	रखित

[फा. सं. भारास्रा/11013/भू.अ./उड़ीसा/रा.रा.-200/अधिसूचना/3(घ)]

माया प्रकाश, उप-सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 28th September, 2011

S.O. 2291(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number S.O. 2668 (E), dated the 28th October, 2010, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) (hereinafter referred to as the said notification) and issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), and amended by notification number S.O. 1575 (E) dated the 5th July, 2011, published in the Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) (hereinafter referred to as the amended notification) and issued under sub-section (1) of section 3A of the said Act, the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/ four laning, etc.), maintenance, management and operation of National Highway No. 200 on the stretch of land from Km. 306.500 to Km.368.000 (Gadparajang - Samala Section) in District Dhenkanal in the State of Orissa;

And whereas, the substance of the said notification has been published in "Samaya" and "Sambada Kalika", both dated the 18th January, 2011 and of the amended notification in "Samaya" and "Dharitri", both dated the 15th August, 2011, under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas no objection has been received from any person by the competent authority;

And whereas, in pursuance of the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section(1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And, further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from Km. 306.500 to Km.368.000 (Gadparajang - Samala Section) of the National Highway No. 200 in the State of Orissa.

Serial number	Name of the district	Name of the taluk	Name of the village	Survey number	Type of land	Nature of land	Area (in acres)	Name of person interested
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Dhenkanal	Kamakhyanager	Baisingha	573	Private	Sarada-III	0.010	Bhima Sahu, Dalei Sahu, S/o. Natabara Sahu, Vill-Nizigaon
				612	Private	Sarada-II	0.010	Pramoda Behera, S/o. Chaitanya Behera, Bachana Behera, S/o. Sada Behera, Bhaskar Behera, S/o. Dina Behera, Janhi Behera, W/o. Dalei Behera, & others, Vill-Nizigaon
				690	Private	Sarada-III	0.010	Sesadeba Behera, S/o. Raja Behera, Vill-Nizigaon
				691	Private	Sarada-II	0.010	Sesadeba Behera, S/o. Raja Behera, Vill-Nizigaon
				759	Private	Gharabari	0.020	Kulamani Sahu, S/o. Gunanidhi Sahu, Vill-Nizigaon
				763	Government	Gochara	0.020	Rakhita
				869	Government	Rasta	1.700	Rakhita
				983	Government	Rasta	0.500	Rakhita
				983/4564	Government	Nayanjori	0.300	Rakhita
				983/4565	Government	Nayanjori	0.300	Rakhita
				869/4566	Government	Nayanjori	0.940	Rakhita
				869/4567	Government	Nayanjori	0.900	Rakhita

[F. No. NHA/11013/LA/Orissa/NH-200/Notification/3D]

MAYA PRAKASH, Dy. Secy.